

PMGSY ROAD JADAV TOLA TO SADAV TOLA

Schedule XLV-Form No. 134

Maintenance

GTSNY (Maintenance)

DIVISION

RASOPATTY

SUB-DIVISION

1082

MEASUREMENT BOOK

Jayboddh Jha

10] किया जाता है कि इस
मापी में मशीन द्वारा मुद्रित 01 से
100 तक अंकित है जो अवर प्रमंडल
पदाधिकारी डी. शांभू के नाम से
नियंत्रित किया जाता है।

[Signature]
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, जयनगर

[Signature]
7/12/2018

Sch. XLV—Form No. 134

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, जयनगर

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1082

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

5th Years maintenance Bill

18

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
name of work: - maintenance of road from jadar tola to jadar tola purniya road under G.T.S.N.Y.					
Agency: - Jay both Jha					
Agreement no: - 41 S.B.D 2018-19					
Date of commencement: - 23-02-2019					
Date of completion: - 22-08-19					
Re-measurement					
Item no (1) i - restoration of					

			$5 \times 4 \times \left(\frac{7.0 + 0.90}{2} \right)$		
			$\times 0.30 = 4.80 m^2$		
			$6 \times 5 \times \left(\frac{0.95 + 1.05}{2} \right)$		
			$\times 0.30 = 9.00$		
			$7 \times 6 \times \left(\frac{1.00 + 1.00}{2} \right)$		
			$\times 0.30 = 13.23$		
			Total = 27.03 m²		
Item no (2) i - making up					
Beams / shoulder - - - etc					
			$6 \times 5 \times \left(\frac{1.20 + 0.80}{2} \right)$	30 m ²	
			$7 \times 8 \times \left(\frac{1.10 + 0.90}{2} \right)$	56.0	
			$8 \times 8 \times \left(\frac{0.95 + 1.05}{2} \right)$	64.0	
			Total = 150.00 m²		

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (2) i - maintenance of cp-work - - - of area					
		1.00x	1.00x	→	1.00x
				Total =	1.00x
Item (3) i - maintenance of road sign - - - of area					
			1.00x 0.750	→	0.750 km
Item (4) i - cutting of brush of tree - - - of area					
		1.00x	1.00x	→	1.00x
Item (5) i - quantity of glass and wood - - - of area					
		2x2x30x(0.70 to 0.60)			90.00 m ²
		$1 \times 2 \times 9.50 \times (0.45 + 0.55) =$			29.50
		$2 \times 3 \times 30 \times (0.80 + 0.60) =$			126.00
		$2 \times 5 \times 30 \times (0.60 + 0.70) =$			195
		$2 \times 2 \times 30 \times (0.70 + 0.60) =$			90.00
				Total =	530.50 m ²
Item (7) i - white washing of parapet wall - - - of area					
		2x6x	1.80	=	21.6 m ²
		4x6x	0.40	=	9.6
		4x6x	0.40	=	9.6
				Total =	40.8

Continuation

